

रोल नं.
Roll No.

--	--	--	--	--	--

परीक्षार्थी कोड को उत्तर-पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर अवश्य लिखें।

Candidates must write the Code on the title page of the answer-book.

नोट	NOTE
(I) कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में मुद्रित पृष्ठ 11 हैं।	(I) Please check that this question paper contains 11 printed pages.
(II) प्रश्न-पत्र में दाहिने हाथ की ओर दिए गए कोड नम्बर को छात्र उत्तर-पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर लिखें।	(II) Code number given on the right hand side of the question paper should be written on the title page of the answer-book by the candidate.
(III) कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में 42 प्रश्न हैं।	(III) Please check that this question paper contains 42 questions.
(IV) कृपया प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करने से पहले, उत्तर-पुस्तिका में प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें।	(IV) Please write down the Serial Number of the question in the answer-book before attempting it.
(V) इस प्रश्न-पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय दिया गया है। प्रश्न-पत्र का वितरण पूर्वाह्न में 10.15 बजे किया जाएगा। 10.15 बजे से 10.30 बजे तक छात्र केवल प्रश्न-पत्र को पढ़ेंगे और इस अवधि के दौरान वे उत्तर-पुस्तिका पर कोई उत्तर नहीं लिखेंगे।	(V) 15 minute time has been allotted to read this question paper. The question paper will be distributed at 10.15 a.m. From 10.15 a.m. to 10.30 a.m., the students will read the question paper only and will not write any answer on the answer-book during this period.

टाइपोग्राफी तथा कम्प्यूटर अनुप्रयोग (नया)

TYPOGRAPHY & COMPUTER APPLICATIONS (NEW)

निर्धारित समय : 3 घण्टे

आधिकतम अंक : 60

Time allowed : 3 hours

Maximum Marks : 60

सामान्य निर्देशः

(i) इस प्रश्न-पत्र में दो खण्ड हैं — खण्ड कः रोजगार कौशल और खण्ड खः विषय कौशल ।

(ii) खण्ड कः रोजगार कौशल (10 अंक)

- दिए गए 6 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए । प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है ।
- दिए गए 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए । प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है ।

(iii) खण्ड खः विषय कौशल (50 अंक)

- दिए गए 12 प्रश्नों में से किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर दीजिए । प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है ।
- दिए गए 7 प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए । प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है ।
- दिए गए 7 प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए । प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है ।
- दिए गए 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए । प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है ।

(iv) इस प्रश्न पत्र में 42 प्रश्न शामिल हैं जिनमें से 30 प्रश्नों के उत्तर देने हैं ।

(v) सभी प्रश्नों के विशेष भाग/ खण्ड को सही क्रम में कीजिए ।

(vi) अधिकतम समय 3 घंटे है ।

खण्ड कः रोजगार कौशल

(10 अंक)

दिए गए 6 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए । प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है ।

$1 \times 4 = 4$

1. संचार क्रिया में संदेश _____ वाला व्यक्ति रिसीवर होता है ।

1

- (A) एनकोड करने
- (B) डिकोड करने
- (C) लिखने
- (D) रिकॉर्ड करने

2. शार्झनस एक _____ रोग है ।

1

- (A) मानसिक
- (B) भौतिक
- (C) मौसमी
- (D) टर्मिनल

General Instructions :

- (i) *This question paper consists of two parts viz. Section A : Employability Skills and Section B : Subject Skills.*
- (ii) **Section A : Employability Skills (10 Marks)**
 - *Answer any 4 questions out of the given 6 questions of 1 mark each.*
 - *Answer any 3 questions out of the given 5 questions of 2 marks each.*
- (iii) **Section B : Subject Skills (50 Marks)**
 - *Answer any 10 questions out of the given 12 questions of 1 mark each.*
 - *Answer any 5 questions from the given 7 questions of 2 marks each.*
 - *Answer any 5 questions from the given 7 questions of 3 marks each.*
 - *Answer any 3 questions from the given 5 questions of 5 marks each.*
- (iv) *This question paper contains 42 questions out of which 30 questions are to be answered.*
- (v) *All questions of a particular part / section must be attempted in the correct order.*
- (vi) *The maximum time allowed is 3 hrs.*

SECTION A : Employability Skills

(10 Marks)

Answer any 4 questions out of the given 6 questions of 1 mark each.

1×4=4

- 1. In the communication process, a receiver is the person who _____ a message. 1
 - (A) encodes
 - (B) decodes
 - (C) writes
 - (D) records
- 2. Shyness is a _____ illness. 1
 - (A) mental
 - (B) physical
 - (C) seasonal
 - (D) terminal

3. तौर तरीके में साधारण _____ मार्गदर्शिकाएँ होती हैं । 1
 (A) बर्टाव
 (B) लड़ाकू
 (C) क्रिएटिंग
 (D) डिप्लोमैटिक
4. शब्दावली 'bit' _____ डिजिट के लिए है । 1
 5. स्टैनोग्राफर के पद के लिए _____ की कुशलता की आवश्यकता होती है । 1
 (A) शार्टहैंड तथा टाईपिंग
 (B) गिनती तथा गणना
 (C) गाने तथा नृत्य
 (D) मार्गदर्शन तथा पढ़ाने
6. व्यापार एक _____ गतिविधि है । 1
 (A) धार्मिक
 (B) राजनीतिक
 (C) सामाजिक
 (D) आर्थिक

- दिए गए 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए / प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है / $2 \times 3 = 6$
7. 'चिरकालिक तनाव एक वह तनाव है जो कि लोगों पर दिन-प्रतिदिन काम करता है ' विवेचना कीजिए । 2
8. मौखिक संचार के किन्हीं चार लाभों की विवेचना कीजिए । 2
9. प्रैज़न्टेशन के लिए आत्म-विश्वास किस प्रकार बनाएँगे ? 2
10. इंटरनेट क्या है ? 2
11. उद्यमशीलता में क्या-क्या समस्याएँ आ सकती हैं ? 2

3. Manners involve general _____ guidelines. 1
- (A) behavioural
(B) fighting
(C) creating
(D) diplomatic
4. The term Bit stands for _____ digit. 1
5. _____ skills are required for the post of Stenographer. 1
- (A) Shorthand and Typewriting
(B) Counting and Calculating
(C) Singing and Dancing
(D) Guiding and Teaching
6. Business is a/an _____ activity. 1
- (A) religious
(B) political
(C) social
(D) economic

Answer any 3 questions out of the given 5 questions of 2 marks each. 2×3=6

7. 'Chronic stress is the stress that wears at people day after day.' Explain. 2
8. Explain any four advantages of oral communication. 2
9. How can you build self-confidence for a presentation ? 2
10. What is Internet ? 2
11. What may be the problems in Entrepreneurship ? 2

दिए गए 12 प्रश्नों में से किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर दीजिए । प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है ।

$1 \times 10 = 10$

12. व्यापारिक पत्रों की _____ शैलियाँ होती हैं । 1
13. मैन्युस्क्रिप्ट में N.P. चिह्न को _____ के लिए उपयोग किया जाता है । 1
14. _____ वर्कशीट डेटा का ग्राफिकल निरूपण है । 1
15. E-व्यापार में व्यापार को _____ पर किया जाता है । 1
16. मौखिक प्रैज़न्टेशन के _____ मुख्य उद्देश्य हैं । 1
17. स्कैटर चार्ट को _____ के रूप में भी जाना जाता है । 1
18. आपकी स्लाइड के ले-आउट को बदलने के लिए कमांड कौन-सा मीनू देता है ? 1
19. D.O. पत्र में कम्पलीमैन्टरी क्लोज के लिए टाईपराईटिंग में किस शब्द का उपयोग किया जाता है ? 1
20. सर्च किए टैक्स्ट के स्थान पर अन्य टैक्स्ट रखने के लिए _____ कमांड सहायता करता है । 1
21. मैन्युस्क्रिप्ट की परिभाषा कीजिए । 1
22. एक नये प्रैज़न्टेशन को _____ की को दबाकर सेव किया जा सकता है । 1
23. SMTP का पूर्ण रूप _____ है । 1

SECTION B : Subject Skills

(50 Marks)

Answer any 10 questions out of the given 12 questions of 1 mark each.

$1 \times 10 = 10$

- 12.** There are _____ styles of Business Letters. 1
- 13.** N.P. sign is used in manuscript for _____. 1
- 14.** A _____ is a graphical representation of worksheet data. 1
- 15.** E-business is the conduct of business on the _____. 1
- 16.** Oral presentations have the _____ basic purposes. 1
- 17.** Scatter chart is also known as _____ chart. 1
- 18.** Which menu provides a command to change the layout of your slide ? 1
- 19.** Name the word to be used in typewriting for a complimentary close in a D.O. letters. 1
- 20.** _____ command helps in substituting the searched text with some other text. 1
- 21.** Define Manuscript. 1
- 22.** A new presentation can be saved by pressing _____ keys. 1
- 23.** The full form of SMTP is _____. 1

दिए गए 7 प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए । प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है ।

$2 \times 5 = 10$

24. किन्हीं चार प्रकार के व्यापारिक पत्रों के नाम लिखिए । 2
25. निम्नलिखित मैन्युस्क्रिप्ट चिह्न क्या बताते हैं ? 2
- (A) trs.
(B) 
(C) //
(D) ctr.
26. वर्कशीट तथा वर्कबुक में क्या अन्तर है ? 2
27. ड्रौप कैप क्या है ? 2
28. MS पावरपॉइंट में उपलब्ध स्टैन्डर्ड ले-आउट कौन-कौन से हैं ? 2
29. सर्वाधिक लोकप्रिय सर्च इंजनों के नाम लिखिए । 2
30. ई-मेल क्या है ? 2

दिए गए 7 प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए । प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है ।

$3 \times 5 = 15$

31. सेमी-ब्लॉकड तथा पूर्णतया ब्लॉकड शैलियों के पत्रों में अन्तर बताइए । 3
32. ई-व्यापार की परिभाषा कीजिए । 3
33. लाईन-चार्ट तथा पाई-चार्ट में क्या अन्तर है ? 3
34. पावरपॉइंट विंडो के नाम लिखिए तथा किसी एक की विवेचना कीजिए । 3
35. ई-वाणिज्य क्या है ? विवेचना कीजिए । 3
36. ई-मेल के लाभ क्या हैं ? 3
37. वर्ड प्रोसेसिंग कोन्सैप्ट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए । 3

Answer any 5 questions from the given 7 questions of 2 marks each.

$2 \times 5 = 10$

- 24.** Give the names of any four types of business letters. 2
- 25.** What do the following manuscript signs indicate ? 2
- (A) trs.
(B) 
(C) //
(D) ctr.
- 26.** What is the difference between Worksheet and Workbook ? 2
- 27.** What is Drop Cap ? 2
- 28.** What are the standard layouts available in MS PowerPoint ? 2
- 29.** Write the names of the most popular search engines. 2
- 30.** What is an e-mail ? 2

Answer any 5 questions from the given 7 questions of 3 marks each.

$3 \times 5 = 15$

- 31.** Differentiate between Semi-Blocked and Fully-Blocked styles of letters. 3
- 32.** Define e-business. 3
- 33.** What is the difference between Line chart and Pie-chart ? 3
- 34.** Write down the names of the PowerPoint Window and explain any one. 3
- 35.** What is e-commerce ? Explain. 3
- 36.** What are the advantages of e-mail ? 3
- 37.** Write a short note on Word Processing concepts. 3

दिए गए 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए / प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है ।

$5 \times 3 = 15$

38. मेमोरैन्डम (ज्ञापन) क्या है ? इस रूप के आधिकारिक पत्राचार के लाभ क्या है ? 5
39. मैन्युस्क्रिप्ट से फेयर प्रति को टाईप करने में ध्यान दिए जाने वाले बिन्दुओं की विवेचना कीजिए । 5
40. इलेक्ट्रोनिक स्प्रैडशीट का महत्व क्या है ? 5
41. फॉर्मेटिंग आवश्यक क्यों है ? एक संख्या के डिफॉल्ट एलाइनमैन्ट, टेक्स्ट तथा स्प्रैडशीट में फार्मूला से क्या अभिप्राय है ? 5
42. पावरपॉइंट में प्रैज़न्टेशन को किस प्रकार तैयार किया जाता है ? विवेचना कीजिए । 5

Answer any 3 questions from the given 5 questions of 5 marks each.

$5 \times 3 = 15$

- | | | |
|------------|--|---|
| 38. | What is a memorandum ? What are the advantages of this form of official correspondence ? | 5 |
| 39. | Explain the points to be kept in mind at the time of typewriting a fair copy from manuscripts. | 5 |
| 40. | What is the significance of electronic spreadsheets ? | 5 |
| 41. | Why is formatting necessary ? What is the default alignment of number, text and formula in a spreadsheet ? | 5 |
| 42. | How can you create a presentation in PowerPoint ? Explain. | 5 |